

प्रेस विज्ञप्ति

गोरखपुर, 20 अगस्त। श्री गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर स्थित महन्त दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में परम्परागत रूप से श्रीकृष्ण जन्मोत्सव दिनांक 23 अगस्त, 2019 को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा तथा इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर परमपूज्य महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित रहेंगे।

उक्त जानकारी श्रीगोरखनाथ मन्दिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी ने दी। इस अवसर पर श्रीकृष्ण बाल रूप सज्जा एवं भजन का आयोजन किया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक एवं 30प्र0 संगीत नाटक अकादमी के सदस्य श्री राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि परम्परागत रूप से इस वर्ष भी बालकृष्ण रूप सज्जा का आयोजन दो वर्गों में किया जायेगा। प्रथम वर्ग कान्हा वर्ग होगा जिसमें 0 से लेकर 5 वर्ष तक तथा गोपाल वर्ग में 5 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। अभिभावकों को बच्चों को घर से श्रीकृष्ण के रूप में सजाकर लाना होगा। प्रतियोगिता के पूर्व प्रतिभागी को अपना निःशुल्क पंजीकरण कृष्णाजन्माष्टमी के दिन दिनांक 23अगस्त, 2019 को सायं 04.00 बजे कार्यक्रम स्थल पर कराना होगा। श्रीकृष्ण रूप सज्जा के साथ-साथ भजन सन्ध्या व नृत्य नाटिका का कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुति की जायेगी।

इस अवसर पर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए श्रीगोरखनाथ मन्दिर के कार्यालय सचिव श्री द्वारिका तिवारी जी ने कहा कि श्रीगोरखनाथ मन्दिर में कृष्णाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालुओं की प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस वर्ष महन्त दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्रीगोरखनाथ मन्दिर में इसकी सारी तैयारी पूर्ण की जा रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि समय से उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ उठाये एवं प्रसाद प्राप्त करें।